



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 28—जून 3, 2005 (ज्येष्ठ 7, 1927)

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28—JUNE 3, 2005 (JYAISTHA 7, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	521	भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	521	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	7	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	577
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	729	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	249
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1505
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रकर खचितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	149
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*		

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	521	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . .	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	521	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	7	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .	577
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	729	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .	249
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . .	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	1505
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . .	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . .	149
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*		

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]  
 [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कृषि मंत्रालय  
 (कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2005

सं. 8-217/2004-पी.पी.। (भाग)--भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के दिनांक 26.11.1993 की अधिसूचना सं. 8-97/91-पी.पी.1, दिनांक 7.6.2004 की फाइल सं. 8-33/2003-पी.पी.1 और दिनांक 19.11.2004 की फाइल सं. 8-62/2003-पी.पी.1, दिनांक 10.12.2004 की फाइल सं. 8-86/2001-पी.पी.। में आंशिक संशोधन करते हुए सर्व साधारण की सूचना के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की निम्नलिखित संस्था और अधिकारी अन्य देशों को निर्यात करने के लिए आशयित पादपों और पादप सामग्रियों के संबंध में निरीक्षण, धूमन और विसंक्रमण तथा पादपस्वच्छता प्रमाण-पत्र, जिसमें ऐसे प्रमाण-पत्रों की जरूरत है, प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं। तदनुसार उक्त अधिसूचना में संगत शीर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित जोड़े जाएंगे :

1. केन्द्रीय सरकार
- 1(xix) प्रभारी अधिकारी,  
केन्द्रीय समेकित कृषि प्रबंधन केन्द्र,  
16, प्रोफेसर कॉलोनी,  
भैंवर कुँआ, मेन रोड,  
इंदौर-452001  
[कोड सं. 'सी' (पीपीक्यूएस)1(21)]
- (xx) प्रभारी अधिकारी,  
पादप संगरोध केन्द्र,  
अगरतला, त्रिपुरा  
[कोड सं. 'सी' (पीपीक्यूएस)1(22)]
- (xxi) प्रभारी अधिकारी,  
केन्द्रीय समेकित कृषि प्रबंधन केन्द्र,  
मंडगांव, गोवा  
[कोड सं. 'सी' (पीपीक्यूएस)1(23)]

8. अध्यक्ष, उन्नत पादप वायरस-विज्ञान केन्द्र,  
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा,  
नई दिल्ली  
[कोड सं. 'सी' (आई ए आर आई)8]
9. अध्यक्ष, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान,  
हसरगट्टा, बंगलौर  
[कोड सं. 'सी' (आई आई एच आर)9]
10. अध्यक्ष, हिमालयी जैव-संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान,  
पालमपुर, हिमाचल प्रदेश  
[कोड सं. 'सी' (आई एच बी टी)10]
11. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश  
उत्तरांचल
  - (i) संयुक्त निदेशक,  
गुणवत्ता नियंत्रण,  
कृषि निदेशालय,  
पौड़ी, उत्तरांचल  
[कोड सं. 'एस'(उत्तरन)1]
  - (ii) निदेशक,  
खाद्य और प्रसंस्करण निदेशालय,  
चौबतिया (रानी खेत), अल्मोड़ा,  
उत्तरांचल  
[कोड सं. 'एस'(उत्तरन)2]
  - (iii) अध्यक्ष,  
पादप बिकृति विज्ञान,  
गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
पंत नगर उत्तरांचल  
[कोड सं. 'एस'(उत्तरन)3]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 अप्रैल 2005

संकल्प

सं. 1-1/2004-हि. शि. सं.--पूर्व समसंख्यक संकल्प दिनांक 18 नवंबर, 2004 के क्रम में हिंदी शिक्षा समिति में राज्य सभा के पूर्व नामांकित दो सदस्यों के स्थान पर राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को हिंदी समिति के सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है :-

1. श्री रामनाथ कोविन्द
2. डॉ. प्रभा ठाकुर

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी हिन्दीतर भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों को सूचनार्थ भेज दी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम-सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बेला बैनर्जी  
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 29 अप्रैल 2005

संकल्प

सं. एफ. 3-5/2005-यू.3--'भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, 1972 के नियमों' के नियम 3 का अनुसरण करते हुए, भारत सरकार ने दिनांक 23 मार्च, 2005 के संकल्प संख्या एफ. 3-5/ 2005-यू.3 के तहत परिषद, अर्थात्, 'भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद' को पुनर्गठित किया।

भारत सरकार दिनांक 23.03.2005 के उपर्युक्त संकल्प में अब निम्नलिखित संशोधन करती है :-

- ii. भारत सरकार द्वारा मनोनीत अट्ठारह इतिहासकार

क्र. सं.	वर्तमान	इनके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाना है
12.	प्रो. मरियम डोसाल इतिहास विभाग बम्बई विश्वविद्यालय मुम्बई	प्रो. मरियम डोसाल इतिहास विभाग बम्बई विश्वविद्यालय मुम्बई
14.	प्रो. इन्दु बांगे इतिहास के प्रोफेसर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़	प्रो. इन्दु बांगे इतिहास विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़

1	2	3
18.	प्रो. सव्यासाची भट्टाचार्य प्रो. इमिरेट्स जे.एन.यू.	प्रो. सव्यासाची भट्टाचार्य भूतपूर्व प्रोफेसर जे.एन.यू.

vi. भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति

क्र. सं.	वर्तमान	इनके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाना है
4.	महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कोलकाता	निदेशक, भारतीय नृशास्त्र सर्वेक्षण, भारतीय संग्रहालय, 27, जवाहर लाल नेहरू रोड, कोलकाता-700016

संकल्प के पृष्ठ 4 के संबंध में 'आदेश' :

वर्तमान	इनके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाना है
यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सदस्य-सचिव, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001 को प्रेषित की जाए।	यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डी. के पालीवाल  
उप शिक्षा सलाहकार

संस्कृति विभाग

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2005

सं. एफ. 9/4/2004-ई.ई. (सी.ए.बी.ए.) --पुरातात्विक अनुसंधानों संबंधी कार्यों में संलग्न भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ तथा पुरातात्विक सिद्धान्तों के अनुप्रयोग से संबंधित अध्ययन कर रही तथा भावी पुरातत्वविदों को प्रशिक्षित कर रही अन्य संस्थाओं के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के घनिष्ठ सम्पर्कों को प्रोत्साहित करने की तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यकलापों के साथ भारत की विद्वत् सोसाइटियों तथा राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ संबंध प्रदान करने की दृष्टि से, राष्ट्रपति केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन उसकी निम्नलिखित संरचना तथा कार्यों के साथ, इसके प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए करते हैं :-

संरचना

1. संस्कृति मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष
2. सचिव, भारत सरकार, संस्कृति विभाग	सदस्य
3. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	सदस्य

- |  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| 4. अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  | सदस्य | (3) प्रो. (सुश्री) शिरीन मूसवी,<br>अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़   |       |
| 5. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, संस्कृति विभाग<br>(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित)  | सदस्य | (4) प्रो. (डा.) सुब्रत चक्रवर्ती,<br>विश्व-भारती शांतिनिकेतन-731235,<br>पश्चिम बंगाल  |       |
| 6. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण विभाग  | सदस्य | (5) प्रो. बी. एम. खंडूरी,<br>एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय,<br>श्रीनगर, गढ़वाल-246174   |       |
| 7. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  | सदस्य | (6) डॉ. कृष्णा मूर्ति,<br>मैसूर विश्वविद्यालय,<br>विश्वविद्यालय कार्य सौध<br>क्रॉफोर्ड हाल, पोस्ट बाक्स सं. 406, मैसूर  |       |
| 8. महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  | सदस्य |   |       |
| 9. महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, जनपथ, नई दिल्ली   | सदस्य |   |       |
| 10. महानिदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, 27<br>जवाहर लाल नेहरू रोड, कोलकाता-700016  | सदस्य |   |       |
| 11. महानिदेशक, पर्यटन, भारत सरकार, परिवहन भवन,<br>नई दिल्ली  | सदस्य | 30. संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिव या<br>निदेशक, पुरातत्व या उनके नामित  | सदस्य |
| 12. महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण, कैन्ट रोड, देहरादून<br>(उत्तरांचल)   | सदस्य | 31 और 32. भारत सरकार द्वारा नामित दो वैज्ञानिकों<br>जिन्हें पुरातात्विक अध्ययनों में रुचि हो।   | सदस्य |
| 13. मुख्य अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,<br>निर्माण भवन, नई दिल्ली  | सदस्य | (1) डॉ. बलदेव राज,<br>परमाणु अनुसंधान केन्द्र,<br>कल्पक्कम, तमिलनाडु  |       |
| 14. मुख्य आयोजक, नगर और ग्राम योजना संगठन, शहरी<br>विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, ई ब्लॉक,<br>विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002   | सदस्य | (2) प्रो. आर. के. दुबे,<br>सामग्री तथा धातु विज्ञानीय इंजीनियरी विभाग,<br>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काणपुर   |       |
| 15. निदेशक, आयोजना एवं वास्तुशिल्प विद्यालय, 4,<br>ब्लॉक बी, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002  | सदस्य | 33. निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान,<br>पलड़ी, अहमदाबाद-380007   | सदस्य |
| 16. निदेशक, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेन्सी, डाटा सेन्टर,<br>बालानगर, हैदराबाद-37   | सदस्य | 34. निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा  | सदस्य |
| 17. अध्यक्ष, इटेक, 71, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003   | सदस्य | 35 से 39. भारत सरकार द्वारा उनकी वैयक्तिक क्षमता<br>में नामित पांच व्यक्ति जिनमें ऐसे दो व्यक्ति भी<br>शामिल हों जो ऐसे संस्थानों से संबंधित हैं तथा<br>जो वास्तव में पुरातात्विक क्षेत्रगत कार्यों में<br>कार्यरत हैं। | सदस्य |
| 18. संसद के तीन सदस्य, राज्य सभा से निर्वाचित एक<br>सदस्य तथा लोक सभा के निर्वाचित दो सदस्य<br>(संबंधित सचिवालयों द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाना है)   | सदस्य | (1) श्री बी. एम. पांडे,<br>वाई-81, हौजखास, नई दिल्ली  |       |
| 19 से 23. भारतीय इतिहास कांग्रेस/अखिल भारतीय प्राच्य<br>सम्मेलन/ एशियाटिक सोसाइटी/भारतीय पुरातत्व<br>सोसाइटी/भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का<br>एक-एक नामजद व्यक्ति  | सदस्य | (2) प्रो. मोहम्मद अमीन,<br>डी-25, आक्सफोर्ड अपार्टमेंट,<br>मदर डेयरी के पीछे, पटपड़गंज,<br>नई दिल्ली  |       |
| 24 से 29. विश्वविद्यालयों द्वारा अनुशंसित नामितों की सूची<br>में से भारत सरकार द्वारा नामांकित भारतीय इतिहास;<br>संस्कृति एवं पुरातत्व के विश्वविद्यालय प्रोफेसर की<br>श्रेणी के भारत के विश्वविद्यालयों के छः प्रतिनिधि | सदस्य | (3) डॉ. के. के. थपलियाल,<br>पूर्व प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, बी-1, 18/1, सेक्टर-के,<br>अलीगंज, लखनऊ-226024   |       |
| (1) प्रो. एम. के. धवलिकर,<br>'श्रीवत्स'-33, नवकेतन सोसायटी, कोथुड, पुणे-29   |       | (4) डॉ. एम. ए. ढाकी,<br>सेवामुक्त निदेशक,<br>अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज,<br>गुडगांव   |       |
| (2) प्रो. अश्विनी अग्रवाल,<br>पंजाब विश्वविद्यालय, प्राचीन भारतीय इतिहास,<br>संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, आर्ट ब्लॉक-II,<br>चंडीगढ़-160014   |       |   |       |

- (5) डॉ. आर. सी. शर्मा, पूर्व निदेशक  
राष्ट्रीय संग्रहालय,  
निदेशक, प्रयाग प्रवाह,  
वाराणसी, उ. प्र.

40 से 50. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक सदस्य

- (1) प्रो. बी. बी. लाल,  
एफ.-7, हौजखास एन्क्लेव, हौजखास, नई दिल्ली।
- (2) श्री एम. एन. देशपांडे,  
डी-25, प्रैस एन्क्लेव, साकेत, नई दिल्ली।
- (3) डॉ. एम. एस. नागराज राव,  
15, गंगोत्री ले आऊट, सैकेण्ड स्टेज,  
सरस्वती पुरम, मैसूर-570009
- (4) श्री आर. सी. त्रिपाठी,  
ए-1055, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226-016।
- (5) श्री जे. पी. जोशी,  
134, वीनस अपार्टमेंट्स इन्डर एन्क्लेव,  
रोहतक रोड, नई दिल्ली।
- (6) श्री एम. सी. जोशी,  
145, वीनस अपार्टमेंट्स इन्डर एन्क्लेव,  
रोहतक रोड, नई दिल्ली।
- (7) डॉ. एस. के. महापात्र,  
21, सत्य नगर, भुवनेश्वर-751007, उड़ीसा।
- (8) श्री बी. पी. सिंह,  
सी-1/34, पंडारा पार्क, नई दिल्ली।
- (9) श्रीमती कोमल आनंद,  
सी-1/5, लोधी गार्डन, नई दिल्ली।
- (10) श्रीमती कस्तूरी गुप्ता मेनन,  
सी-11/66, बापा नगर, नई दिल्ली।
- (11) श्रीमती गौरी चटर्जी,  
सी-11/15, तिलक लेन, नई दिल्ली।

51. वरिष्ठ निदेशक (पुरातत्व)

सदस्य-सचिव

कार्य :

यह बोर्ड, इसके सदस्यों द्वारा भेजे गए, भारत में पुरातत्व संबंधी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देगा। यह सरकार के विचारार्थ ऐसे मामलों में भी सुझाव भी दे सकता है। बोर्ड, जब कभी आवश्यक होगा, अपने सम्मुख विशिष्ट मुद्दों की जांच करने एवं उन पर रिपोर्ट देने के लिए उप-समितियां गठित कर सकता है।

2. बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार होगी, बैठक की तिथि एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

3. बोर्ड के लिए चुने जाने वाले संसद सदस्यों का कार्यकाल सदन की सदस्यता के उनके कार्यकाल तक सीमित होगा, जिसमें उन्हें चुना गया है।

4. राष्ट्रपति सहर्ष यह आदेश करते हैं कि केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित संरचना एवं कार्यों के लिए स्थायी समिति गठित करेगा।

संरचना

महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

अध्यक्ष एवं संयोजक

सदस्य

बोर्ड के पांच सदस्यों का चुनाव बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जायेगा।

कार्य

सामान्यतया यह स्थायी समिति इस बोर्ड को देश में पुरातत्वीय निष्पादन के उन्नयन में सलाह देगी एवं इसे भेजी गई सभी रिपोर्टों एवं मद्दों पर विचार करेगी और बोर्ड की बैठक की कार्य सूची पर अपने विचार व्यक्त करने के साथ-साथ सरकार अथवा समिति के अध्यक्ष के ऐसे कार्य करेगी जो इसे सौंपे गए हों। यह, जब कभी आवश्यक होगा, सहयोजित करने के अधिकार के साथ उपसमितियां गठित कर सकती है। इसकी बैठकें वर्ष में दो बार से अधिक नहीं होंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सभी संबंधितों को संकल्प की प्रति भेजी जाए।

सी. बाबू राजीव

महानिदेशक

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &amp; COOPERATION)

New Delhi, the 11th May 2005

No. 8-217/2004-PP.I (pt.).—In partial modification of Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation Notification No. 8-97/91-PP.I dated 26.11.1993, F.No. 8-33/2003-PP.I dated 7.6.2004, F.No. 8-62/2003-PP.I dated 19.11.2004 and F.No. 8-86/2001-PP.I dated 10.12.2004, it is hereby notified for general information that the following institutions and officers of the State Government are authorized to inspect, fumigate or disinfect and to grant Phytosanitary Certificate in respect of plants and plants materials intended for export to other countries which require such certificate. Accordingly in the said notification the following shall be added under the relevant heads :

## I. Central Government

1. (xix) The Officer-In-Charge,  
Central Integrated Pest Management Centre,  
16, Professor Colony,  
Bhanwar Kuan, Main Road,  
Indore-452001.  
[Code No. 'C' (PPQS) 1 (21)]

- (xx) The Officer-In-Charge,  
Plant Quarantine Station,  
Agartala, Tripura  
[Code No. 'C' (PPQS) 1 (22)]

- (xxi) The Officer-In-Charge,  
Central Integrated Pest Management Centre,  
Madgaon, Goa  
[Code No. 'C' (PPQS) 1 (23)]

8. Head, Advance Centre for Plant Virology,  
Indian Agriculture Research Institute, PUSA,  
New Delhi.  
[Code No. 'C' (IARI) 8]

9. Head, Indian Institute of Horticulture Research,  
Hasargatta, Bangalore  
[Code No. 'C' (IIHR) 9]

10. Head, Institute of Himalayan Bio-resources  
Technology, Palampur, Himachal Pradesh.  
[Code No. 'C' (IHBT) 10]

## II. States/UTs

## Uttaranchal

- (i) Joint Director,  
Quality Control,  
Directorate of Agriculture,  
Pauri, Uttaranchal  
[Code No. 'S' (Uttaran) 1]
- (ii) Director,  
Directorate of Food and Processing,  
Chaubatia (Rani Khet), Almora,  
Uttaranchal.  
[Code No. 'S' (Uttaran) 2]

- (iii) Head,  
Plant Pathology,  
Govind Vallabh Pant University of  
Agriculture and Technology,  
Pant Nagar, Uttaranchal.  
[Code No. 'S' (Uttaran) 3]

ASHISH BAHUGUNA

Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF SECONDARY AND HIGHER  
EDUCATION)

New Delhi-110 001, the 12th April 2005

## RESOLUTION

No. 1-1/2004-HSS—In continuation of the earlier Resolution of even number dated 18th November, 2004, the following Members of Parliament from the Rajya Sabha are nominated as members of the 'Hindi Shiksha Samiti' in place of the previous two members of the Rajya Sabha :—

1. Shri Ram Nath Kovind
2. Dr. Prabha Thakur

## ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the non-Hindi-speaking States/UTs, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President Secretariat and all Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

BELA BANERJEE

Jt. Secy.

New Delhi-1, the 29th April 2005

## RESOLUTION

No. F.3-5/2005-U.3.—Whereas in pursuance of Rule 3 of the 'Rules of the Indian Council of Historical Research, New Delhi, 1972', the Government of India reconstituted the Council, viz., 'Indian Council of Historical Research' vide Resolution No. F.3-5/2005-U.3, dated the 23rd March, 2005.

Now, the Government of India hereby make the following amendments to the said Resolution dated 23.03.2005 :—

## II. Eighteen historians nominated by the Government of India

Sl. No.	Existing	To be substituted as follows
1	2	3
12.	Prof. Maryam Dossal Department of History Bombay University, Mumbai	Professor Mariam Dossal Department of History Bombay University, Mumbai

1	2	3
14.	Prof. Indu Bange Professor of History Punjab University Chandigarh	Professor Indu Bange Department of History Punjab University Chandigarh
18.	Prof. Sabyasachi Bhattacharya Professor Emeritus, JNU	Prof. Sabyasachi Bhattacharya Formerly Professor, JNU

**VI. Four persons to represent Government of India**

4.	Director-General Archaeological Survey of India Kolkata	Director Anthropological Survey of India Indian Museum, 27, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata-700016.
----	--	---

'ORDER' on Page No. 4 of the Resolution :

Existing	To be substituted as follows
Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Member-Secretary, Indian Council of Historical Research, 35, Ferozeshah Road, New Delhi-110001.	Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

**ORDER**

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. K. PALIWAL  
Dy. Educational Adviser

**DEPARTMENT OF CULTURE**  
(Archaeological Survey of India)

New Delhi-110011, the 29th March 2005

No. F. 9/4/2004-EE(CABA).—With a view to promoting closer contacts of the Archaeological Survey of India with Indian Universities conducting archaeological researches and other institutions carrying out studies related to application of archaeological principles, training future archaeologists, and providing for closer association of learned societies in India and of the State Governments with the activities of the Archaeological Survey of India, the President is pleased to reconstitute the Central Advisory Board of Archaeology for a period of four years from the date of publication with the following composition and functions :

**COMPOSITION :**

**Chairman**

- I. Minister of Culture, Government of India.

**Members**

- II. Secretary to the Government of India,  
Department of Culture.  
III. Director General, Archaeological Survey of  
India.

- IV. Additional Director General,  
Archaeological Survey of India.  
V. Joint Secretary to the Government of India,  
Department of Culture (dealing with ASI).  
VI. Secretary, Ministry of Environment and  
Forest, Department of Environment.  
VII. Chairman, University Grants Commission.  
VIII. Director General, Council of Scientific and  
Industrial Research.  
IX. Director General, National Museum, Janpath,  
New Delhi.  
X. Director General, Anthropological Survey  
of India, 27 Jawaharlal Nehru Road,  
Calcutta-700016.  
XI. Director General of Tourism, Government  
of India, Transport Bhawan, New Delhi.  
XII. Surveyor General, Survey of India, Cant.  
Road, Dehradun (Uttaranchal).  
XIII. Chief Engineer, Central Public Works  
Department, Nirman Bhawan, New Delhi-11.  
XIV. Chief Planner, Town and Country Planning  
Organisation, Ministry of Urban Develop-  
ment & Poverty Alleviation, E Block, Vikas  
Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110 002.  
XV. Director, School of Planning and  
Architecture, 4, Block B, I.P. Estate, New  
Delhi-110002.  
XVI. Director, National Remote Sensing Agency,  
Data Centre, Balanagar, Hyderabad-37.  
XVII. Chairman, INTACH, 71, Lodhi Estate, New  
Delhi-110003.  
XVIII. Three Members of Parliament, one elected  
from Rajya Sabha and two elected from Lok  
Sabha (to be notified separately by the  
respective Secretariats).  
XIX. A nominee each of Indian History Congress/  
to All India Oriental Conference/Asiatic  
XXIII. Society/Indian Archaeological Society/  
Indian Council of Historical Research.  
XXIV. Six representatives of the Universities of India  
to of the Rank of University Professor of Indian  
XXIX. History, Culture and Archaeology nomina-  
ted by the Government of India from a list of  
nomines recommended by the Universities.  
(i) Prof. M.K. Dhavalikar,  
'Srivatsa'—33, Navaketan Society,  
Kothrud, Pune-29.  
(ii) Prof. Ashvini Aggarwal,  
Punjab University,  
Deptt. of Ancient Indian History Culture  
& Archaeology, Art Block-II,  
Chandigarh-160014.



- (iii) Prof. (Ms.) Shireen Moosvi,  
Aligarh Muslim University, Aligarh.
- (iv) Prof. (Dr.) Subrata Chakraborty,  
Visva-Bharti, Santiniketan-731 235,  
West Bengal.
- (v) Prof. B.M. Khanduri,  
HNB Garhwal University,  
Srinagar, Garhwal-246174.
- (vi) Dr. Krishna Murthy,  
University of Mysore,  
Vishwavidyalaya Karya Soudha,  
Crawford Hall, Post Box No. 406,  
Mysore.
- XXX. Secretary or Director Archaeology or their  
nominee of the State Government/Union  
Territories concerned.
- XXXI. Two Scientists having interest in archaeo-  
logical studies, nominated by the Government  
of India.
- XXXII. (i) Dr. Baldev Raj,  
Atomic Research Centre,  
Kalpakkam,  
Tamilnadu.
- (ii) Prof. R.K. Dubey,  
Deptt. of Materials & Metallurgical  
Engineering, Indian Institute of  
Technology, Kanpur.
- XXXIII. Director National Institute of Design, Paldi,  
Ahmedabad-380007.
- XXXIV. Director National Institute of Oceanography,  
Goa.
- XXXV. Five persons nominated in their personal  
capacities by the Government of India
- XXXIX. including two persons belonging to institutions  
actually engaged in archaeological field work.
- (i) Shri B.M. Pande,  
Y-81, Hauz Khas,  
New Delhi.
- (ii) Prof. Mohammad Amin,  
D-25, Oxford Apartment, Behind Mother  
Dairy, Patparganj,  
New Delhi.
- (iii) Dr. K.K. Thapliyal,  
Former Prof. & Head,  
B-1, 18/1, Sector-K,  
Aliganj, Lucknow-226 024.
- (iv) Dr. M.A. Dhaky,  
Director-Emeritus,  
American Institute of Indian Studies,  
Gurgaon.
- (v) Dr. R.C. Sharma, Former Director,  
National Museum,

Director, Pragma Pravah,  
Varanasi, U.P.

XL. Ex-Directors General of Archaeological  
to Survey of India  
L.

- (i) Prof. B.B. Lal,  
F-7, Hauz Khas Enclave,  
Hauz Khas, New Delhi.
- (ii) Shri M.N. Deshpande,  
D-25, Press Enclave,  
Saket, New Delhi.
- (iii) Dr. M.S. Nagaraja Rao,  
15, Gangotri Layout, 2nd Stage,  
Saraswati Puram,  
Mysore-570009.
- (iv) Shri R.C. Tripathi,  
A-1055, Indira Nagar,  
Lucknow-226 016.
- (v) Shri J.P. Joshi,  
134, Venus Apartments,  
Inder Enclave,  
Rohtak Road, New Delhi.
- (vi) Shri M.C. Joshi,  
145, Venus Apartments,  
Inder Enclave,  
Rohtak Road, New Delhi.
- (vii) Dr. S.K. Mahapatra,  
21, Satya Nagar,  
Bhubaneswar-751007, Orissa.
- (viii) Shri B.P. Singh,  
C-1/34, Pandara Park,  
New Delhi.
- (ix) Smt. Komal Anand,  
C-1/5, Lodhi Garden,  
New Delhi-110 003.
- (x) Smt. Kasturi Gupta Menon,  
C-II/66, Bapa Nagar,  
New Delhi-110 003.
- (xi) Smt. Gauri Chatterjee,  
C-II/15, Tilak Lane,  
New Delhi-110 001.

Member-Secretary

LI. Sr. Mosts Director (Archaeology)

#### FUNCTIONS :

The Board shall advise the Government of India on matters relating to archaeology in India referred to it by its members. It may also make suggestions on such matters for the consideration of the Government. The Board may set up sub-committees, as and when necessary, to examine and report on specific issues before it.

2. The Board shall meet once in a year, the date and venue of the meeting to be decided by the Chairman.
3. The tenure of the Members of Parliament elected to be members of the Board shall be limited to the tenure of their Membership of the House which elected them.
4. The President is also pleased to order that the Central Advisory Board of Archaeology shall set up a Standing Committee with the following composition and functions.

**COMPOSITION :****CHAIRMAN and CONVENOR**

Director General, Archaeological Survey of India

**MEMBERS**

Five members of the Board to be elected by the members of the Board from amongst themselves.

**FUNCTIONS :**

The Standing Committee shall advise this Board generally on the promotion of archaeological pursuance in the country consider all reports and items referred to it and express its views on the agenda for the Board's meeting and perform such other functions as the Government or the Chairman of the Committee may assign to it. It may set up sub-committees as and when necessary with power to co-opt. It may meet not more than twice a year.

**ORDER**

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

C. BABU RAJEEV  
Director General

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005